

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 344]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 नवम्बर 2023—कार्तिक 17, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2023

फा.क्र. 4492-2023-इक्कीस-ब-(दो).— राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के 3 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रेषित (संशोधित प्रस्ताव/अतिरिक्त प्रस्ताव) संलग्न सूची के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को विधान सभा निर्वाचन 2023 का कार्य संपन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्र. 1612-23-भा.निर्वा.-2023

रायसेन, दिनांक 31 अक्टूबर 2023

विधानसभा निर्वाचन 2023

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में अतिरिक्त प्रस्ताव

जिले का नाम : रायसेन

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	श्री नितेश रघुवंशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सांची	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
2	श्री अंकित खीची	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सांची	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
3	श्री के.के. ठाकुर	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, गैरतगंज	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
4	श्री वरुणलाल अहिरवार	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, गैरतगंज	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
5	श्री मंगल सिंह उच्चारिया	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सांची	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
6	श्री सियाराम रघुवंशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सांची	स्थाई	सम्पूर्ण जिला

अतः कृपया उपरोक्तानुसार समस्त अधिकारियों को कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करने हेतु प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (सा.निर्वा.), जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

क्र.-एस-4-निर्वा.सा.-2023-3624

विदिशा, दिनांक 24 अक्टूबर 2023

“विधानसभा निर्वाचन 2023”
“FST, SST & VST में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को”
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम – विदिशा

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं।	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
(F.S.T.)						
विधानसभा क्षेत्र 144- विदिशा						
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	उपयंत्री	जनपद पंचायत विदिशा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
2.	श्री संदीप वर्मा	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	खाद्य सुरक्षा विभाग विदिशा	तृतीय श्रेणी		
3.	श्री प्रहलाद सिंह मीना	राजस्व निरीक्षक	ग्रामीण तहसील विदिशा	तृतीय श्रेणी		
4.	श्री कपिल महाजन	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विदिशा	तृतीय श्रेणी		
5.	श्री ईश्वर सिंह	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग विदिशा	तृतीय श्रेणी		
6.	श्री सी.पी. शर्मा	राजस्व निरीक्षक	ग्रामीण तहसील विदिशा	तृतीय श्रेणी		
7.	श्री राजेश शर्मा	उपयंत्री	जनपद पंचायत विदिशा	द्वितीय श्रेणी		
8.	श्री संजय चौधरी	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा(मेके.) विदिशा	तृतीय श्रेणी		
9.	श्री श्रवण नामदेव	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विदिशा	द्वितीय श्रेणी		
विधानसभा क्षेत्र 145- बासौदा						
10.	श्री अशोक सिंह कौरव	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग बासौदा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
11.	श्री रवि कुशवाह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग बासौदा	तृतीय श्रेणी		
12.	श्री गिरीश चंद्र शर्मा	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग बासौदा	तृतीय श्रेणी		
13.	श्री प्राण सिंह मौगिया	उप वन क्षेत्रपाल	वन विभाग बासौदा	तृतीय श्रेणी		
14.	श्री लक्ष्मीनारयण पंथी	वनपाल	वन विभाग बासौदा	तृतीय श्रेणी		

15.	श्री रामकुमार शर्मा	आर.ए.ई.ओ.	कृषि विभाग बासौदा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
16.	श्री अरुण कांत प्रजापति	परियोजना अधिकारी	महिला बाल वि.वि. ग्यारसपुर	द्वितीय श्रेणी		
17.	श्री रूपेश बघेल	एस.ए.डी.ओ.	कृषि विभाग ग्यारसपुर	तृतीय श्रेणी		
18.	श्री घनश्याम वंशकार	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	उद्यानिकी विभाग ग्यारसपुर	तृतीय श्रेणी		
विधानसभा क्षेत्र 146- कुरवाई(अ.जा.)						
19.	श्री ओमप्रकाश इमने	मण्डी सचिव	कृषि समिति कुरवाई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
20.	श्री फतेह सिंह चौहान	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री सड़क	द्वितीय श्रेणी		
21.	श्री जगदीश बंसल	मण्डी निरीक्षक	कृषि समिति कुरवाई	तृतीय श्रेणी		
22.	श्री पल्लव साहनी	पशु चिकित्सा	पशु विभाग पठारी	द्वितीय श्रेणी		
23.	श्री मकरंद सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	तहसील कुरवाई	तृतीय श्रेणी		
24.	श्री आशीष आर्य	एस.ए.डी.ओ.	कृषि विभाग कुरवाई	तृतीय श्रेणी		
25.	श्री शिवराज सिंह	एपीओ	जनपद पंचायत कुरवाई	तृतीय श्रेणी		
26.	श्री रोडमल भिलाला	राजस्व निरीक्षक	तहसील पठारी	तृतीय श्रेणी		
27.	श्री मुकेश पंथी	सहायक राजस्व निरीक्षक	नगर परिषद कुरवाई	तृतीय श्रेणी		
विधानसभा क्षेत्र 147-सिरोंज						
28.	श्री उमेश कुमार सोनी	प्राचार्य	हाई स्कूल इमलानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
29.	श्री इरशाद अली	प्रभारी प्राचार्य	शास.कन्या उ.मा.वि. लटेरी	द्वितीय श्रेणी		
30.	श्री धीरजसिंह यादव	प्रभारी प्राचार्य	उ.मा.वि. आनन्दपुर	द्वितीय श्रेणी		
31.	श्री महेश कुमार ताम्रकार	प्राचार्य	सी.एम. राईज सिरोंज	द्वितीय श्रेणी		
32.	श्री छविकांत शर्मा	उपयंत्री	जनपद पंचायत सिरोंज	तृतीय श्रेणी		
33.	श्री तीतरसिंह अहिरवार	प्रभारी प्राचार्य	हाईस्कूल काछीखेड़ा	तृतीय श्रेणी		
34.	श्री अरशद सिद्दीकी	प्राचार्य	हाईस्कूल चितावर	द्वितीय श्रेणी		
35.	श्री गजराज सिंह मीना	प्राचार्य	हाईस्कूल जावती	द्वितीय श्रेणी		
36.	श्री रणधीर सिंह मीना	प्राचार्य	हाईस्कूल महौठी	द्वितीय श्रेणी		

विधानसभा क्षेत्र 148- शमशाबाद						
37.	श्री विजय इवने	उपयंत्री	नगर परिषद शमशाबाद	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
38.	श्री राजकुमार शर्मा	मण्डी सहायक	उप निरीक्षक शमशाबाद	तृतीय श्रेणी		
39.	श्री प्रमोद मेश्राम	राजस्व निरीक्षक	तहसील कार्यालय शमशाबाद	तृतीय श्रेणी		
40.	श्री जगदीप सिंह राजपूत	वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी	उद्यान विभाग नटेरन	तृतीय श्रेणी		
41.	श्री माखन विश्वकर्मा	ब्लॉक समन्वयक	पी.एम.ए.वाय, नटेरन	तृतीय श्रेणी		
42.	श्री दीनदयाल चिढ़ार	प्रभारी राजस्व निरीक्षक	नटेरन	तृतीय श्रेणी		
43.	श्री रामचंद्र वर्मा	ग्रा. उद्यान विस्तार अधिकारी	उद्यान विभाग नटेरन	तृतीय श्रेणी		
44.	श्री नरेन्द्र रघुवशी	बीटीएम	कृषि विभाग नटेरन	तृतीय श्रेणी		
45.	श्री भूपेन्द्र हुन्देत	ए.डी.ई.ओ.	जनपद पंचायत विदिशा	तृतीय श्रेणी		

(S.S.T.)

विधानसभा क्षेत्र 144- विदिशा						
1.	श्री संजीव जैन	उपयंत्री	नगर पालिका परिषद विदिशा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
2.	श्रीमति नंदनी बघेल	श्रम निरीक्षक	श्रम विभाग विदिशा	तृतीय श्रेणी		
3.	श्री रघुवीर मीना	पंचायत समन्वयक अधि.	जनपद पंचायत विदिशा	तृतीय श्रेणी		
4.	श्री संजीव श्रीवास्तव	उपयंत्री	नगर पालिका परिषद विदिशा	तृतीय श्रेणी		
5.	श्री धर्मेन्द्र जाट	ब्लॉक कॉर्डिनेटर	जनपद पंचायत विदिशा	तृतीय श्रेणी		
6.	श्री के.के. साहू	उपयंत्री	जनपद पंचायत विदिशा	तृतीय श्रेणी		
7.	श्री रामप्रकाश जायसवाल	उपयंत्री	नगर पालिका परिषद विदिशा	तृतीय श्रेणी		
8.	श्री रामनारायण विश्वकर्मा	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र विदिशा	तृतीय श्रेणी		
9.	श्री राजेश शाक्य	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र विदिशा	तृतीय श्रेणी		

विधानसभा क्षेत्र 145- बासौदा

10.	श्री मोहित कुमार गुप्ता	उपयंत्री	संजय सागर परियोजना बासौदा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
11.	श्री आर.के.दुबे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग बासौदा	तृतीय श्रेणी		
12.	श्री कुलदीप लकड़ा	मंडी निरीक्षक	कृषि उपज मंडी बासौदा	तृतीय श्रेणी		

13.	श्री सैयद सरफुद्दीन	ग्रा.उद्यान वि. अधिकारी	बासौदा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
14.	श्री सिकन्दर मलिक	ग्रा.उद्यान वि. अधिकारी	बासौदा	तृतीय श्रेणी		
15.	श्री रविन्द्र निगवाल	ग्रा.उद्यान वि. अधिकारी	बासौदा	तृतीय श्रेणी		
16.	श्री विशाल पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग ग्यारसपुर	तृतीय श्रेणी		
17.	श्री एच.एन. चंदेल	उपयंत्री	जनपद पंचायत ग्यारसपुर	तृतीय श्रेणी		
18.	श्री सुरेश सिसौदिया	बी.टी.एम.	कृषि विभाग ग्यारसपुर	तृतीय श्रेणी		
विधानसभा क्षेत्र 146- कुरवाई(अ.जा.)						
19.	श्री अजय प्रताप सिंह किरार	ए.डी.ई.ओ.	कृषि विभाग बासौदा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
20.	श्री रामशीष यादव	राजस्व निरीक्षक	भू-अभिलेख विदिशा	तृतीय श्रेणी		
21.	श्री योगेन्द्र सोनी	सहकारी विस्तार अधिकारी	सहकारिता विभाग विदिशा	तृतीय श्रेणी		
22.	श्री सुनील कुमार	व्हीएएस	पशु चिकित्सा केन्द्र ग्यारसपुर	तृतीय श्रेणी		
23.	श्री राकेश कुमार शर्मा	परीक्षण सहायक	बासौदा	तृतीय श्रेणी		
24.	श्री जे.पी. रोहित	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र कुरवाई	तृतीय श्रेणी		
25.	श्री गौरव कुमार	उपयंत्री	नगर परिषद कुरवाई	तृतीय श्रेणी		
26.	श्री गौरीशंकर अहिरवार	परीक्षण सहायक	बासौदा	तृतीय श्रेणी		
27.	श्री देवेन्द्र ठाकुर	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र कुरवाई	तृतीय श्रेणी		
विधानसभा क्षेत्र 147- सिरोंज						
28.	श्री गोपाल हलेचा	आरएईओ	कृषि विभाग लटेरी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
29.	श्री जनवेद सिंह	प्राचार्य	शासकीय उ.मा.वि. लटेरी	द्वितीय श्रेणी		
30.	श्री मनमोहन विश्वकर्मा	प्राचार्य	उ.मा.वि. लटेरी	द्वितीय श्रेणी		
31.	श्री सुनील परमार	आरएईओ	कृषि विभाग लटेरी	तृतीय श्रेणी		
32.	श्री विनोद मण्डलोई	आरएईओ	कृषि विभाग	तृतीय श्रेणी		
33.	श्री विवेक कुमार	उपयंत्री	जनपद पंचायत लटेरी	तृतीय श्रेणी		
34.	श्री ओमप्रकाश रघुवंशी	बीआरसी	जनपद शिक्षा केन्द्र सिरोंज	तृतीय श्रेणी		

35.	श्री महेश शर्मा	बीएसी	ज्ञान शिक्षा केन्द्र सिरोंज	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
36.	श्री हरिसिंह जाटव	प्रधान अध्यापक	मा.शाला रकाबगंज सिरोंज	द्वितीय श्रेणी		
विधानसभा क्षेत्र 148- शमशाबाद						
37.	श्री विकास शाक्य	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग नटेरन	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
38.	श्री जगदीश गुर्जर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग नटेरन	तृतीय श्रेणी		
39.	श्री प्रकाश राजपूत	राजस्व निरीक्षक	नगर परिषद शमशाबाद	तृतीय श्रेणी		
40.	श्री मुकेश सोनी	सहायक विस्तार अधिकारी	जनपद पंचायत नटेरन	तृतीय श्रेणी		
41.	श्री रविन्द्र सिंह	उपयंत्री	जनपद पंचायत नटेरन	तृतीय श्रेणी		
42.	श्री पवन शर्मा	उपयंत्री	जनपद पंचायत नटेरन	तृतीय श्रेणी		
43.	श्री ओ.पी. राय	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग नटेरन	तृतीय श्रेणी		
44.	श्री लक्ष्मण गुर्जर	आरएईओ	कृषि विभाग नटेरन	तृतीय श्रेणी		
45.	श्री संतोष अहिरवार	अधीक्षक	छात्रावास नटेरन	तृतीय श्रेणी		

(V.S.T.)

विधानसभा क्षेत्र 144- विदिशा						
1.	कु. राजेश्वरी धुर्वे	उपयंत्री	सम्राट अशोक सागर उपसंभाग 2	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
2.	श्री राजा रॉवत	उपयंत्री	सम्राट अशोक सागर उपसंभाग 5	तृतीय श्रेणी		
3.	श्री विजय सिंह	उपयंत्री	जनपद पंचायत विदिशा	तृतीय श्रेणी		
विधानसभा क्षेत्र 145- बासौदा						
4.	श्री आदित्य रावल	उपयंत्री	संजय सागर परियोजना बासौदा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
5.	श्री अमित अंकारे	एसवीएम	स्वच्छता मिशन ग्यारसपुर	तृतीय श्रेणी		
6.	श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी	उपयंत्री	परियोजना प्रशासक कोठा बैराज बासौदा	तृतीय श्रेणी		
विधानसभा क्षेत्र 146- कुरवाई(अ.जा.)						
7.	श्री दीपक राजपूत	पटवारी	तहसील कुरवाई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
8.	श्री हिमांशु दुबे	पटवारी	तहसील कुरवाई	तृतीय श्रेणी		
9.	श्री पी.एस. दिवाकर	आरएईओ	कृषि विभाग कुरवाई	तृतीय श्रेणी		

10.	श्रीमती आरती बघेल	आरएईओ	कृषि विभाग कुरवाई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
11.	श्रीमती दीपज्योति सिंह राजपूत	आरएईओ	कृषि विभाग कुरवाई	तृतीय श्रेणी		
12.	सुश्री पूजा पंथी	आरएईओ	कृषि विभाग कुरवाई	तृतीय श्रेणी		
13.	सुश्री सोनाली श्रीवास्तव	आरएईओ	कृषि विभाग कुरवाई	तृतीय श्रेणी		

विधानसभा क्षेत्र 147- सिरोंज

14.	श्री महेश शर्मा	वीपीओ	जनपद पंचायत लटेरी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
15.	श्री विनोद श्रीवास्तव	एडीईओ	जनपद पंचायत सिरोंज	तृतीय श्रेणी		
16.	श्री पूरन लाल राज	मण्डी निरीक्षक	कृषि उपज मण्डी सिरोंज	तृतीय श्रेणी		

विधानसभा क्षेत्र 148- शमशाबाद

17.	श्री जयप्रकाश शर्मा	जन शिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र नटेरन	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए	मतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक
18.	श्री फिरदोस खान	जन शिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र नटेरन	तृतीय श्रेणी		
19.	श्री सत्येन्द्र सक्सेना	जन शिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र नटेरन	तृतीय श्रेणी		

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

क्र. भा.निर्वा-2023-2309

अलीराजपुर, दिनांक 01 नवम्बर 2023

विधानसभा निर्वाचन - 2023

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में संशोधित प्रस्ताव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 191-अलीराजपुर एवं 192-जोबट, जिला अलीराजपुर।

जिले का नाम :- अलीराजपुर

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय/विभाग का नाम	सेवा/ संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदाय की जाना है।
1	श्री मयंक तिवारी	महाप्रबंधक	म.प्र.सड़क परिवहन निगम अलीराजपुर	राज्य शासन	वि.स.निर्वा. क्षे. क्र. 191-अलीराजपुर के लिए
2	श्री शैलेश किराडे	वरिष्ठ मानचित्रकार	खनिज विभाग अलीराजपुर	राज्य शासन	
3	डॉ. राजेश सिंह बघेल	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सालय अलीराजपुर	राज्य शासन	
4	श्री लोकेन्द्रसिंह कुशवाह	वन क्षेत्रपाल	वन विभाग अलीराजपुर	राज्य शासन	वि.स.निर्वा. क्षे. क्र. 192-जोबट के लिए
5	श्री तोलाराम हट्टिला	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन विभाग अलीराजपुर	राज्य शासन	
6	श्री राजशेखर कुलकर्णी	प्राचार्य	आदिम जाति कल्याण विभाग अलीराजपुर	राज्य शासन	

उप जिला निर्वाचन अधिकारी.